

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 26 अगस्त 2022

प्रश्न -1

_____ ने राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड (NFDB) की 9वीं शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता की।

- A) संजीव कुमार बाल्यान
- B) पुरुषोत्तम रूपला
- C) नरेंद्र सिंह तोमर
- D) एल. मुरुगना

सही उत्तर: B

राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड (NFDB) ने नई दिल्ली में अपनी 9वीं शासी निकाय की बैठक आयोजित की। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बैठक की अध्यक्षता की।

प्रश्न -2

भारत की पहली कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज (CISR) निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज (INS) पर लॉन्च की गई थी?

- A) INS डेगा
- B) INS कर्ण
- C) INS विक्रमादित्य
- D) INS वीरबाहु

सही उत्तर: B

18 अगस्त 2022 को वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता ने INS कर्ण में अपनी तरह की पहली कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज (CISR) का उद्घाटन किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 26 अगस्त 2022

प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) राजेश वर्मा
- B) जोसेफ एंटनी
- C) जगन्नाथ श्रीनिवासन
- D) अजय भादू

सही उत्तर: A

सरकार ने एक बयान में कहा कि ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है।

प्रश्न -4

“NETAJI: Subhas Chandra Bose's Life, Politics and Struggle” नामक एक पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी?

- A) बनारसी दास
- B) कैलाश जोशी
- C) चौधरी शंकर राँय
- D) कृष्णा बोस

सही उत्तर: D

बोस परिवार के एक प्रतिष्ठित सदस्य और अग्रणी नेताजी शोधकर्ता कृष्णा बोस ने “NETAJI: Subhas Chandra Bose's Life, Politics and Struggle” नामक एक पुस्तक लिखी है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 26 अगस्त 2022

प्रश्न -5

'जिला सुशासन पोर्टल' विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ सहयोग किया है?

- A) अरुणाचल प्रदेश
- B) गुजरात
- C) केरल
- D) महाराष्ट्र

सही उत्तर: A

केंद्र सरकार ने "जिला सुशासन पोर्टल" विकसित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है।

प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किस देश द्वारा युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किया जाएगा?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) चीन
- C) उत्तर कोरिया
- D) USA

सही उत्तर: A

अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना (RAAF) द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 26 अगस्त 2022

प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रज़ी का हाल ही में निधन हो गया है?

- A) छत्तीसगढ़
- B) झारखंड
- C) केरल
- D) उत्तराखंड

सही उत्तर: B

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रज़ी (83) का हाल ही में निधन हो गया है।

प्रश्न -8

_____ U-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनीं।

- A) अंतिम पंघाल
- B) पायल
- C) प्रियंका
- D) सोनम मलिक

सही उत्तर: A

भारत की जूनियर पहलवान अंतिम पंघाल U-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 26 अगस्त 2022

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किस राज्य में दही हांडी को आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है?

- A) दिल्ली
- B) गुजरात
- C) महाराष्ट्र
- D) उत्तर प्रदेश

सही उत्तर: C

हाल ही में, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि 'दही हांडी' को अब महाराष्ट्र के आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी।

प्रश्न -10

निम्नलिखित में से किस देश में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया?

- A) ब्राजील
- B) कोलंबिया
- C) पराग्वे
- D) पेरू

सही उत्तर: C

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।